



रामाज्ञा स्कूल, नॉएडा
कक्षा-छ / विषय-हिंदी / २०१७-१८
ओलिंपियाड अभ्यास पत्र

प्र० १. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए

पहाड़ी गाँवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकारकी तलाश में बाघ कभी-कभी गाँव तक पहुँच जाता है। गेंवली गाँव में एक बारयही हुआ। एक बाघ ने गाँव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गाँव में फैल गई। गाँव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गाँव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गाँवके लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बाँधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फँस गया होगा लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं पिंजड़े में बाघ नहीं था!

(क) बाघ गाँव में क्यों आ आते थे ?

- (१) घर की तलाश में (२) शिकार की तलाश में (३) सोने के लिए (४) इनमें से कोई नहीं

(ख) बाघ ने किसे मार डाला था ?

- (१) कुत्ते को (२) गाय को (३) बकरी को (४) किसी को नहीं

(ग) पूरे गाँव में क्या खबर फैल गई थी ?

- (१) गाय को मारने की (२) बाघ के आने की (३) मेला लगने की (४) इनमें से कोई नहीं

(घ) लोगों ने किसे अपनी चिंता बताई ?

- (१) सरपंच को (२) मीरा बहन को (३) मोहन को (४) गोपाल को

(ङ) था पिंजड़े के अन्दर किसे बाधा गया ?

- (१) चूहे को (२) बकरी को (३) गाय को (४) हिरन को

(च) पिंजड़े का दरवाजा कैसा था ?

- (१) खुला हुआ (२) बंद (३) लम्बा (४) चौड़ा

(छ) पिंजड़े को कहाँ रखा गया था ?

- (१) जहाँ बाघ दिखाई देता था (२) जंगल में (३) सड़क पर (४) मैदान में

(ज) मीरा बहन कहाँ रहती थी ?

- (१) गाँव में (२) गोपाल आश्रम में (३) जंगल में (४) कहीं नहीं

(झ) लोग क्या सोचकर खुश हो गए थे ?

- (१) बाघ मर गया (२) बाघ पिंजरे में फस गया (३) बकरी बच गयी (४) बाघ बच गया

(ञ) पिंजड़े के पास पहुंचकर लोगों ने क्या देखा ?

- (१) मरी हुई बकरी (२) मरा हुआ बाघ (३) पिंजरे में बाघ नहीं था (४) इनमें से कुछ नहीं

प्र०२ सही विकल्प चुनिए -

१. 'रुकावट' शब्द में प्रत्यय है -

- (क) वट (ख) रुकना (ग) आवट (घ) रोकना

२. 'दुरूपयोग' शब्द में उपसर्ग है-

- (क) दु (ख) दुरु (ग) दुर (घ) योग

३. पंद्रह दिन में एक बार होने वाला -

- (क) पाक्षिक (ख) मासिक (ग) अर्धवार्षिक (घ) साप्ताहिक

४. 'निडर' शब्द का विलोम है-

- (क) डरपोक (ख) शत्रु (ग) द्वेष (घ) नम्र

५. 'नदी' शब्द का पर्यायवाची नहीं है -

- (क) गंगा (ख) सरिता (ग) सलिला (घ) तटिनी

६. 'आप' का बहुवचन होगा-

- (क) हम (ख) वे (ग) आप लोग (घ) इनमें से कोई नहीं

७. हिंदी में कितने वचन होते हैं-

- (क) एक (ख) दो (ग) तीन (घ) चार

८. कर्म का कारक चिह्न है-

- (क) के लिए (ख) पर (ग) को (घ) का

९. हमारे देश की राष्ट्र भाषा है-

- (क) पंजाबी (ख) उर्दू (ग) अंग्रेजी (घ) हिंदी

१०. उर्दू भाषा की लिपि है -

- (क) देवनागरी (ख) गुरुमुखी (ग) फ़ारसी (घ) रोमन